क्र.सं निविदा सं

05221383

ई-एडवर्टाइज्ड टेंडर नोटिस सं. 34/ईटी./2022-23 दिनांक: 26.08.2022

📵 आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

फीडर जंक्शन बॉक्स फॉर एलएचबी टाइप जेनरेटर कोचेज

माल का विवरण

153 सेट

नियत तिथि

19.09.2022

# चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालयः प्रथम तल, 'डेयर हाउस', नं. २, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालयः प्रथम एवं द्वितीय तल, भूखंड सं. ६, मुख्य पूसा मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005

नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड कपना ।लामटंड क प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संबोधित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ताओं, जिनके नाम निम्न स्तंभ (ख) में निदर्शित किए गए हैं, को निम्न स्तंभ (घ) में उल्लेखित बकाया राषि का राशि पर ब्याज के साथ निम्न स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चके हैं. अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न स्तंभ (ङ.) में विवरणित कंपनी के पास बंधककृत संपत्तियों का, उक्त नियमावली के अंतर्गत विरचित नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न स्तंभ (च) में अंकित संबंधित तिथियों पर, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न स्तंभ (ड.) में वर्णित संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा इस प्रकार का कोई भी लेन-देन, ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ निम्न स्तंभ (घ) में अंकित एक राशि हेत् मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, उधारकर्तागण विक्रय की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों सिहत संपूर्ण बकाया देयराशि का भगतान करके प्रतिभत परिसंपत्ति को छडवा सकते हैं।

क्र. सं. (क)	उधारकर्ता का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या (ख)	्र मांग सूचना की तिथि		की की		आधिपत्यप्राप्त संपत्ति के विवरण (ड.)			
1.	(ऋण खाता संख्या X0HEDET00002358861 एवं HE02DET00000006512) 1. चरण सिंह 2. गुरचरण कौर 3. जगतार सिंह 4. मंजीत सिंह 5. सरताज फर्नीचर हाउस, अपने एआर स्वामियों के माध्यम से उपरोक्त सभी का पताः 1—ए / 121, एनआईटी फरीवाबाद, हिरयाणा—121001	17-05-2022	ાં	79,16,285.40/-	09-05-2022	मकान सं. 1—ए/121 के समस्त वह भाग तथा अंश जो न्यू टाउनशिप, फरीदाबाद, तहसील एवं जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित हैं			
2.	(ऋण खाता संख्या <b>X0HEDHE00001100177)</b> 1. अशोक कुमार 2. श्रीमती संपा <b>उपरोक्त का पता</b> ः ई–67, साउथ अनारकली कृष्णा नगर, नई दिल्ली–110051	10-06-2021	ki	25,85,907/-	-90-	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो द्वितीय तल भाग के रूप में छताधिकारों के बिना, संपत्ति सं. ई—67, क्षेत्र माप 83.61 वर्ग मीटर अर्थात् 100 वर्ग गज, जो रेक्ट. नं. 26, किला सं. 16 में से ग्राम खुरेजी खास, ई—ब्लॉक की आबादी, साउथ अनारकली, शाहदरा, दिल्ली में स्थित हैं	502		

SHALIMAR

PAINTS

दिनांकः ३१.०८.२०२२, स्थानः दिल

(सीआईएन: L24222HR1902PLC065611)

पंजीकृत कार्यालयः स्टेनलेस सेंटर, चौथी मॉजल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 कॉपोरैंट कार्यालयः पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 28, सेक्टर नंबर 32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 वेबसाइटः www.shalimarpaints.com ई-मेल : askus@shalimarpaints.com

फोन नंबर: +91 124 461 6600 फैक्स नंबर +91 124 461 6659

वीडियो कान्फ्रोसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 120वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण हेतु सूचना

एतदवारा सचना दी जाती है कि एजीएम की नोटिस, जिसे एजीएम बुलाने के लिए नियत समय में परिचालित किया जाएगा, में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए शालीमार पेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 120वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सुचना के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियत समय पर केवल उन्हीं सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कंपनी/ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं।

सदस्य, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम, पुणे पता, फोलियो नंबर, पंजीकृत किया जाने वाला ईमेल पता, पैन कार्ड की स्कैन की हुई स्व–सत्यापित किपी और कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी (जैसे डाइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, यटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज) का उल्लेख करते हुए एक विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्युटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए को beetal@beetalfinancial.com पर या कंपनी के ईमेल पते askus@shalimarpaints.com पर ईमेल हारा भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें ताकि एजीएम नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और ई-मेल द्वारा ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और डीपी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने का तरीका एजीएम नोटिस में दिया जाएगा।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.shalimarpaints.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं और सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और परिपत्रों के अनपालन में है।

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः 30 अगस्त, 2022 निदेशक मंडल के आदेशानसार कते शालीमार पेंटस लिमिटेड कंपनी सचिव



# मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय :- टीसी नंबर 14/2074-7, मथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरूवनंतपुरम- 695034

सीआईएन - U65922KL2010PLC025624, कार्पोरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वां तल, परिणी क्रेसेन्जो, प्लॉट नंबर सी 38 एवं सी 39, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई-400051, फोन नंबर : 022-62728517 प्राधिकृत अधिकारी ई-मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com सम्पर्के व्यक्ति : संजय वैशी – 7977255521, नवीन चौधरी– 9368265544, गोविन्द राम शर्मा–9212443181

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्ति की नीलामी–सह बिक्री

मथ्ट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (इसमें आगे "कम्पनी" कही गई है) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित ग्राहकों को प्रदान की गई आवास ऋण सुविधाओं व संबंध में प्रतिभृति के रूप में धारित अधोवर्णित सम्पित्तयों (इसमें आगे "प्रतिभृत आस्ति" कही गई है) का कब्जा ले लिया है और आगे प्रतिभृत आस्ति क "जैसी है जहां है". जो है जैसी है". जो है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार / शर्तों पर कर्जदारों से अतिदेय निम्नवर्णित राशि के प्रतिभत्त ऋण और आगे अंतिम वसूली तक ब्याज एवं खर्चों की वसूली के लिए जनता से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा बेचने का निर्णय किया है। सम्पत्ति के कल बकाया आरक्षित मल्य ईएमडी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री

x'.   सं.		विवरण	कब्जा की	राशि (रु.)	(表.)	(表.)			
			तिथि						
1.	15600095187	प्लॉट नं. 2, खसरा नं. 83 एवं 84, , कॉलोनी आकाश	रचनात्मक	26 मार्च,2021	830000/-	83,000.00			
l	सचिन कुमार चतरपाल सिंह	पुरम्, राजस्व ग्राम मोहकमपुर, परगणा, तहसील एवं	कब्जा	को					
	नीतू सिंह		1242558.11/-						
निरीक्षण की तिथि एवं समय : 14 सित., 2022 एवं 15 सित., 2022 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक,									

नीलामी की तिथि : 30 सितम्बर, 2022 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक तथा बोली जमा करने हेतु अंतिम तिथि : 29 सितम्बर, 2022 बिक्री का स्थान इन्दौर शाखा : मेरठ शाखा, 2रा तल, सी गी टावर 155/1, मंगल पाण्डेय नगर, सीसीएस युनीवर्सिटी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004

इच्छक बोलीदाता सम्पत्तियों का निरीक्षण उपरिवर्णित तिथि और समय पर कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते :- 1) बिक्री सरफासी ऐक्ट. 2002 के तहत वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णतया यहां नीचे वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन और इच्छक बिर्ड्स द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑफर / निविदा दस्तावेऽ में वर्णित नियम एवं शर्तों के भी अधीन होंगी। 2) सम्पत्ति "जैसी है जहां है", जो है जैसी है", जो है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार ⁄ शर्तों पर ऋणभारे यदि कोई. सहित बेची जाएगी। 3) नीलामी अधीन सम्पत्तियों का निरीक्षण ऊपर विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। सम्पत्तियों के निरीक्षण अथव निविदा प्रस्तुत करने के संबंध मे किसी पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संबंधित स्थानों पर उपरिवर्णित कॉन्टैक्ट नंबरों पर सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदात उपरोक्त सम्पत्ति के लिए अपनी ऑफर्स सुरक्षित मुल्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा (ईएमडी) हेतु "मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड डाफट के साथ भेज सकते हैं। 4) इच्छक बोलीदाता को ऑफर दस्तावेज के साथ आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति तथा बोलीदाता पहचान प्रमाण तथा निवास प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट. निर्वाचन आयोग कार्ड. राशन कार्ड. डाइविंग लाइसेन्स इत्यादि की प्रति भी संलग्न करनी होगी। 5) सम्पति किसी भी हालत में सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 6) नीलामी में मौजूद बोलीदाताओं को अपनी ऑफर सुरक्षित मूल्य से आगे रू. 10000 / – के गुणक में बढ़ाने की अनुमति होगी। 7) सभी बकाया तथा खर्चे जैसेकि म्यूनिसिपल कर, अनुरक्षण / सोसायटी प्रभार, बिजली तथा जल कर अथवा कोई अन्य बकाया जिसमे स्टाम्प डयटी, पंजीकरण प्रभार, हस्तांतरण प्रभार और उक्त सम्पत्तियों के संबंध में बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के संबंध में प्रभार शामिल हैं, सफल बोलीदाता / खरीदा को वहने करने होंगे। 8) सफल बोलीदाता / खरीदार को क्रय मुल्य की 25 प्रतिशत राशि (पहले जमा की गई 10 प्रतिशत की ईएमडी समायोजित करने के बाद बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर मंजुरी के अगले कार्यदिवस के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जमा जब्त कर र्ल जाएगी। 9) बिक्री मल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि प्राधिकत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पष्टि की सचना के 15 दिन के भीतर अथवा एकमात्र प्राधिकत अधिकारी के विवेकानुसार और लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी। 10) प्राधिकत अधिकारी का बिक्री की सूचना के नियम एवं शत में अपने विवेकानसार, बिना कोई पूर्व सचना दिए, बदलाव करने का अधिकार सरक्षित है। 11) उपरोक्त नामक कर्जदार /सह–कर्जदार द्वारा यदि सभी बकाया राशिय प्रतिभूत लेनदार द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों के साथ, सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक चुका दी जाती हैं तो सम्पत्ति बेची नहीं जाएगी तथा संभावित बिर्ड्स से प्राप्त सभी बोलियां मैसर्स मथट हाउसिंग फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध किसी देयता / दावे के बगैर वापस कर द

कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता को एतदद्वारा सरफासी ऐक्ट प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) एवं 9 के तहत 30 दिन का कानूनी नोटिस दिया जाता है कि वे उपरिवर्णित बकाया राशियां अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ, उपरिवर्णित अवधि के भीतर चुकता कर दें अन्यथा प्रतिभूत आस्ति उपरिवर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेची जाएंगी। कर्जदार / रों से सम्पत्ति से अपनी अप्रभारित वस्तुएं भी 30 दिन की समयावधि के भीतर हटा लेने का अनुरोध है, अन्यथा इनको सम्पत्ति

से उनकी जोखिम एवं लागत पर हटाया जाएगा स्थानः मेरठ, तिथिः ३० अगस्त, २०२२, हस्ता / – प्राधिक्रत अधिकारी, मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड



**Chola** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, डेयर हाउस, नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. शाखा कार्यालय : 1ला तथा 2सरा तल, प्लॉट नं. 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पनर्भगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सचनाएं जारी की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि का पनर्भगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सिहत सम्पूर्ण बकायों का भुगतान करके प्रतिभृत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

क्र.सं.	कर्जदार का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण	ंसांकेतिक कब्जे की तिथि
A	В	С	D	Е	F
1.	ऋण खाता संख्या X0HEDHE00001131205 और HE02EDL00000003676)  1. नीलोफेर इपिनंदर सिंह, पताः फ्लैट नंबर 607, छठी मंजिल, सर्वप्रिय विहार, सर्वप्रिय अपार्टमेंट, नई दिल्ली–110016। इसके अलावाः निलोफर इपिनंदर सिंहः प्लॉट नंबर 49, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट नंबर 1, ब्लॉक-III, इरोज गार्डन कॉलोनी, लक्कडपुर गांव, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद -121009 इसके अलावाः निलोफर इपिनंदर सिंहः 90/33, ओखला इंड एरिया फेज -1, नई दिल्ली - 110020 2. हरमन जीत सिंह पताः फ्लैट नंबर 607, छठी मंजिल, सर्वप्रिय विहार, सर्वप्रिय अपार्टमेंट, नई दिल्ली–110016 इसके अलावाः हरमन जीत सिंह, ई-503, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली–110048 3. मैसर्स नाइटेक्स ओवरसीज, पताः फ्लैट नंबर 607, छठी मंजिल, सर्वप्रिय विहार, सर्वप्रिय अपार्टमेंट, नई दिल्ली–110016 इसके अलावाः मेसर्स नाइटेक्स ओवरसीज, 90/33, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज - 1, नई दिल्ली -110020	22.12.2021	र. 3,73,63,184.44 तिथि 22–12–2021	सम्पत्ति फ्लैट नं. 607, 6ठा तल का समस्त भाग, सर्वप्रिय अपार्टमेंट, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली में स्थित	27 अगस्त, 2022
-					_

की विशिष्टियों और आवश्यकताओं की अनुसूची व अनुसार "पूरे भारत में रेलवे परिसर मे तिथि: 29.8.2022 ग्राउंड-आधारित टावरों (GBT/GBM) की आपर्ति, स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए व्यापार भागीदार का चयन हेत् पात्र बोलीदाताओं से ई (ऑनलाइन)-निविदाएं

आमंत्रित करती है। आरएफपी सूचना और प्रस्तावित रखरखाव। निविदा प्रलेख www.railtelindia.com, https://railtel.enivida.com ਗੀਵ निविदा मुल्यः रु. 117.01 लाख https://eprocure.gov.in/epublish/app पर पूर्णता अवधि: 12 महीने डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। **ऑनुलाइन** 

सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज https://www.ireps.gov.in उपलब्ध है।

दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की Follow us on : W twitter.com/GMSRailway धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 की उपधारा (5) के खंड (क) के मामले में

सीगल इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी-27, सरिता विहार, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के मामले में में है. आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है वि

संशोधन / शुद्धिपत्र रेलटेल / ई-निविदा वैबसाइट में प्रकाशित किया जायेगा।

फार्म नं. आईएनसी–26

किम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30

के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,उत्तरी क्षेत्र,

रेलटेल

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन स. L64202DL2000GOI107905

उपरोक्त नामित कम्पनी बुधवार, 10 अगस्त, 2022 के आयोजित 2022–23की प्रथम असाधारण आम बैठक पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को " राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेत कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पृष्ठि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय,बी-2 विंग, 2वीं तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

सीगल इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, U24295DL1995PTC071494 बी–27, सरिता विहार, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली,पूर्वी दिल्ली ईमेल आईडीः rakesh@seagull.in आवेदक के लिए और उसकी ओर से सीगल इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता 🗸

Naturo Indiabull Ltd

निदेशक

राकेश शर्मा ध्थान : दिल्ली दिनांकः 30.08.2022 डीआईएन : 00856526 ए—46, सेक्टर 41, नोएडा उत्तर प्रदेश—201303

दक्षिण रलव (निर्माण संगठन) अर्नाकुलम जंक्शन

कार्य का नामः करुप्पंन्थारा-चिंगावनम के

खुलने की तिथि: 22.9.2022 के 15.00 बजे।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) I,

अर्नाकुलम जं.

# आईसीआईसीआई होम फाइनॉस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, मुम्बई-400051 कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

स्वर्णाभूषणों की नीलामी सुचना

सर्व-साधारण को सचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एंचएफसी) ने नीचे वर्णित खाताओं में गिरवी स्वर्णाभुषणों की नीलामी करने का फैसला किया है जो अधिशेष हो गया है अथवा जिस पर चक की गई है अथवा जो मार्जिन का उल्लंघन करने वाले ग्राहकों का है। एतदहारा सामान्य रूप से आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों)/सह म्हणधारक(कों) को आगे के ब्याज एवं नीलामी की तिथि तक सभी लागतों तथा अनुषांगिक खर्चे आदि के साथ बकाया राशि (नीचे वर्णित) का भुगतान करने के लिए सुचना दी जाती है।

अपने आभषणों को छडाने के इच्छक ऋणधारक/सह–ऋणधारक उस मल शाखा जहाँ ग्राहक द्वार आभषण गिरवी रखी गई है, में विजिट करें अथवा संबंधित शाखाओं के उक्त पदनामित प्राधिकारी की नीचे वर्णित नम्बरों पर सम्पर्क करें।

निर्धारित अवधि में बकाया राशि के भुगतान में विफल होने पर आईसीआईसीआई एचएफसी नीलामी द्वारा आम जनता/बोलीदाताओं को इन स्वर्णाभुषणों की नीलामी कर देगा। यह नीलामी सोमवार, 12 सितम्बर, 2022 को 12.30 बजे अप. से 3.30 बजे अप. के बीच http://gold.samil.in के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी।

**शाखा**: हिसार, यमुनानगर, **सम्पर्क नं**.- 9717278711, 9355655688, **जीएल खाता नं**. 120000027609, 120000026804, 120000026798

यह बिक्री आईसीआईसीआई एचएफसी की पृष्टि के अधीन है और आईसीआईसीआई एचएफसी के प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी संविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है।

यह बिक्री http://gold.samil.in के माध्यम से ऑनलाइन होगी, यदि किसी भी कारण से निर्धारित तिथि को नीलामी पूरी नहीं होती है तो वह नीलामी परवर्ती कार्य दिवस में आयोजित होगी। स्थान अथवा तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो तथा बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्ते, विवरण हमारी वेबसाईट www.icicihfc.com पर अद्यतन की जायेगी।

इस संदर्भ में आगे कोई सुचना जारी नहीं की जायेगी।

तिथि: 31.08.2022

स्थानः पंजाब, चंडीगढ एवं हरियाणा कते आईसीआईसीआई होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Limited

Man Singh Patel CNR NO: PBLD03-049147-2019 Date: 04-10-2022 Publication Issued To: Man Singh Patel Address- S/o Jagat Bahadur Patel R/o Manuwar Pur Mendara Allahabad UP 228411 Whereas it has proved to the satisfaction of this

court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82. of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 04-10-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to : https://highcountchd.gov.in /?trs= district\_notice&district=ludhiana

02 12221226 रंप्रग पीओटी 6779 नग 12.01.2023 03 11221189 सेट ऑफ ट्रॉफ पलोर पार्ट (सीआरएफ) 312 Ric 31.10.2022 लगेज रैक मॉउटिंग फॉर जनरेटर कम ब्रेक वैन एलए। 20.10.2022 03221573 04 112 सेट सेट ऑफ एल्यमीनियम कार्नर पैनल फॉर एलएचबी 03221304 437 Ric 20.09.2022 जीएस(इओजी) कोचेज 04221143 इलोक्टरो पेनुमेटिक प्रेसराइज फ्लोसिंग सिस्टम फॉर 5036 सेट 19.09.2022 बीजी कोचेज 04221184 इन्ट्रेन्स डोर एसएसएलवाई. (आर.एच) फॅार एलएचबी 559 नग 20.09.2022 नन एसी स्टेनलेस स्टील कोचेए इन्ट्रेन्स डोर एसएसएलवाई. (एल.एच) फीर एलएचबी 495 नग नन एसी स्टेनलेस स्टील कोचेज 2466 नग 27.10.2022 08 03221333 लावोटरी पैन ओरिट टाइप फॉर एलएचबी कोचेज शुद्धि पत्र निविदा खुलने की तिथि-29.08.2022 स्थान पर 28/호리/2022-23 तिथि 12.09.2022 पदे। दिनाक 05.08.2022 11221196 32 / ईटी / 2022-23 टैन्डर न. निविदा खुलने की तिथि-29.08.2022 रथान पर दिनांक 18.08.2022 तिथि 12.09.2022 पदे। 11221116

Website Address: www.ireps.gov.in & www.mcf.indianrailways.gov.in उप मुख्य सामग्री प्रबंधक / शैल

ई-निविदा सूचना सं0 08/2022-23 (खुली)/उमुइं-II/एमसीएफ/आरबीएल उप मुख्य अभियंता-II, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली, भारत के राष्ट्रपति की ओर रं निम्नलिखित कार्य हेतु "खुली" ई-निविदा आमंत्रित करते है। क्रम सं.-- 1 कार्य का नाम-- आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के फैक्टी परिसर के जीरो वॉल्व डंप यार्ड में कार्यालय एवं शीचालय की व्यवस्था। निविदा सं.- 10-2022-23 अनुमानित लागत लाख में - 1759475.97 निविदा खुलने की तिथि- 28.09.2022 कार्य समापन की अवधि -04 माह क्रम सं.- 2 कार्य का नाम- आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के ट्रैक यार्ड के स्टेबलिंग लाइन और साइडिंग लाइन का एक वर्ष की

अवधि के लिए रख-रखाव। निविदा सं.- 02-2022-23-RT अनुमानित लागत लाख में -7491564.43 निविदा खुलने की तिथि- 28.09.2022 कार्य समापन की जबिय -12 माह निविदाकार निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय तक अपनी मूल / संशोधित निविदा जमा कर सकते है। इस निविदा के लिये पूर्व प्रचलित मैनुअली ऑफर प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। और यदि कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। ● अधिक जानकारी के लिए, कपया भारतीय

चप मुख्य इंजीनियर-II

ई-निविदा सूचना सं0 10/2022-23 (खुली)/उमुइं-II/एमसीएफ/आरबीएल उप मुख्य इंजीनियर-II, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली, भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते है। क्रम सं.- 1 कार्य का नाम- एमसीएफ कॉलोनी जोन-बी (इको पार्क एवं स्पोर्ट कॉम्पलेक्स) में बागवानी अनुरक्षण एवं विकास का कार्य। **निविदा सं**.-13 / 2022-23 अनुमानित लागत लाख में -37802854.07 निविदा खुलने की तिथि- 28.09.2022 कार्य समापन की अवधि -24 मात । ● निविदाकार निविदा बंद होने की दिनाक एवं समय तक अपनी मूल / संशोधित निविदा जमा कर सकते है। इस निविदा के लिये पूर्व प्रचलित मैनुअली ऑफर प्रक्रिया की अनुमति नही है। और यदि कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर विधार नहीं किया जायेगा।●अधिक जानकारी के लिए, कुपया भारतीय रेलवे की आईआरईपीएस वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें।

रेलवे की आईआरईपीएस वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें।

निविदा संख्या:- CAMC LCWM 2022 23 73, नियत तिथि:-16.09.2022 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/एम&पी, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली, लालगंज द्वारा निन्नलिखित कार्यों के लिये निविदा सूचना संख्या CAMC\_LCWM\_2022\_23\_73, नियत तिषि:-16.09.2022 के माध्यम से खुली ई. निविदा आमंत्रित की जाती है यह निविदा द्वि पैकेट प्रणाली पर आधारित है :- कार्य का नाम 02 नग सीएनसी लेजर कटिंग और वेल्डिंग मशीन का व्यापक वार्षिक रखरखाव (सीएएमसी) खुली निविदा के माध्यम से 02 वर्षों के लिए अनुबंध। कार्य की अनुमानित लागत क्रपया में 3,73,82,400.00 घरोहर राशि / बोली प्रतिभृति 3,36,900.00 निविदा प्रपत्र का मूल्य-ल. 10,000.00 कार्य समापन की अवधि— दो वर्ष (24 माह) • निविदा बंद होने की अंतिम तिथि। एवं समय-16.09.2022 को 15:30 बजे। ●विस्तृत निविदा सूचना, टर्म्स एवं कंडीशन आदि की जानकारी भारतीय रेल के पोर्टल www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता / एम&पी

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

# NATURO INDIABULL LIMITED

(Formerly known as "IT INDIABULL PRIVATE LIMITED") Our Company was originally incorporated as "IT Indiabull Private Limited" on September 02, 2016 vide certification of incorporation bearing Corporate Identity No. U72900RJ2016PTC055890 under the provision of sub-section (2) of section 7 of the

Companies Act, 2013 issued by the Central Registration Centre, Registrar of Companies. Subsequently, the name was changed to "Naturo Indiabull Private Limited" and a fresh certificate of incorporation was obtained on February 03, 2022. Further, the Company has converted into Public Limited Company vide a fresh certificate of incorporation issued by Registrar of Companies- Jaipur, consequent upon conversion from Private Limited to Public Company dated March 09,2022 in the name of "Naturo Indiabull Limited". The Corporate Identification Number of our Company changed to U72900RJ2016PLC055890. For further details, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 100 of the Prospectus Registered office: 1st Floor, 51, Lohiya Colony, 200 Ft. Bye-Pass, Vaishali Nagar, Jaipur – 302021, Rajasthan, India Contact Person: Ms. Shalini Joshi, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 99282 34076 E-Mail ID: cs@naturoindiabull.com: Website: www.naturoindiabull.com

OUR PROMOTERS: I) Ms. JYOTI CHOUDHARY, AND (II) Mr. GAURAV JAIN

### BASIS OF ALLOTMENT

SHARE, AGGREGATING TO ₹55.20 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 34.56.000 EOUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹30/- PER EOUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹1036.80 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 35.69% AND 33.89% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBLUSSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBLICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 29 of this Prospectus.)

ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: AUGUST 22, 2022 and CLOSED ON: AUGUST 24, 2022

PROPOSED DATE OF LISTING: September 02, 2022\*. The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received in-principal approval letter dated August 05, 2022 from BSE for using its name

in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commenced on or about

September 02. 2022\* \* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited. SUBSCRIPTION DETAILS The Issue was subscribed to an extent of 19.24 times i.e., Gross Subscription of Rs. 2,10,06,00,000/- for 7,00,20,000 equity shares were based on the bid file received from BSE Limited on the day after closure of the Issue received as

against Rs. 10,92,00,000/- for 36,40,000 equity shares. (Including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 13.46 times (after technical rejection and bids not banked). i.e., Net Subscription

of Rs. 1,46,94,00,000/- for 48,980,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications. **Summary of the Valid Applications Received:** No. of Application No. of Application No. of Application **Equity Share** No No. of Application **Equity Share** 

38.584.000 680,000 2.688.000 Retail Individual Applicant 37,904,000 Non-Retail Applicants 11.296.000 263 10.892.000 Market Make 184,000 1,084,000 9,915 9,740 48,980,000 50,064,000 3,640,000 A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹30/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,84,000 Equity shares.

Total No. of Shares applied Total No. of Shares allocated/ in each category applicants (after rounding off) allotted 184000 184000 GRAND TOTAL 100.00 184000 100.00 184000

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹30/- per Equity Share, was finalized

consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 14.10 times i.e. for 3,79,04,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 26,88,000 Equity Shares to 672 successful applicants. Sr.No No. of Shares applied for (Category wise)

GRAND TOTAL 2688000 100.00 37904000 100.00 9476 672 C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 30/- per Equity Share, was finalized in the investors of the investors consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 14.18 times i.e. for 1,08,92,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 7,68,000 Equity Shares to 99 successful applicants

The category wise details of the Basis of Allotment are as under: Total No. of Shares applied in each category No. of Shares applied for (Category wise) No. of Applications Received Total No. of Equity Shares Allotted % to total % to total | Ratio of allottees to applicants No. of Succesful Applicants

1 0	8000	113	42.97	904000	8.30	16	113	16	64000
2	12000	19	7.22	228000	2.09	4	19	4	16000
3	16000	12	4.56	192000	1.76	3	12	3	12000
4	20000	37	14.07	740000	6.79	13	37	13	52000
5	24000	6	2.28	144000	1.32	3	6	3	8000
6	28000	8	3.04	224000	2.06	4	8	4	16000
7	32000	13	4.94	416000	3.82	7	13	7	28000
8	36000	13	4.94	468000	4.30	8	13	8	32000
9	40000	4	1.52	160000	1.47	3	4	3	12000
10	44000	1	0.38	44000	0.40	1	1	1	4000
11	48000	3	1.14	144000	1.32	1	1	3	12000
12	56000	3	1.14	168000	1.54	1	1	3	12000
13	60000	5	1.90	300000	2.75	1	1	5	20000
14	64000	1	0.38	64000	0.59	1	1	1 5	4000
15	80000	5	1.90	400000	3.67	1	1	5	20000
4000 additio	onal share is allocated for Serial no 1	5 in the ratio of 2:5		5	•	2	5		8000
16	84000	1 §	0.38	84000	0.77	1	1	1 3	4000
17	92000	1	0.38	92000	0.84	. 1	1	1	8000
18	96000	1	0.38	96000	0.88	1	1	1	8000
19	100000	2	0.76	200000	1.84	1	1	2	16000
4000 additio	onal share is allocated for Serial no 1	9 in the ratio of 1:2		70		1	2	159	4000
20	164000	1	0.38	164000	1.51	1	1	1	12000
21	172000	1	0.38	172000	1.58	1	3 1	2 1 8	12000
22	200000	2	0.76	400000	3.67	1	1	2	24000
4000 additio	onal share is allocated for Serial no 2	2 in the ratio of 1:2				1	2	1	4000
23	284000	1 }	0.38	284000	2.61	1	1	1	20000
24	332000	6	2.28	1992000	18.29	1	1	6	120000
4000 additio	onal share is allocated for Serial no 2	4 in the ratio of 5:6				5	6		20000
25	336000	2	0.76	672000	6.17	1	1	2	48000
26	600000	1	0.38	600000	5.51	1	1	1	44000
27	1540000	1	0.38	1540000	14.14	1	1	1	108000
	GRAND TOTAL	263	100.00	10892000	100.00	7.5		99	768000

The Board of Directors of the company at its meeting held on August 29, 2022 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE Limited and at a meeting held on August 29, 2022 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated August 13, 2022 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on or prior to August 30, 2022. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices has been forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before August 30, 2022. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated August 13, 2022 ("Prospectus") INVESTORS PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED at nil.ipo@linkintime.co.in. All future

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India

Telephone: +91- 22 - 4918 6200 Facsimile: +91-22-49186060 Email: nil.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Ms. Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number: INR000004058 CIN No: U67190MH1999PTC118368

> For NATURO INDIABULL LIMITED On behalf of the Board of Directors

> > Gaurav Jain

Managing Director THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF

NATURO INDIABULL LIMITED

where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

तिथि : 31/08/2022, स्थान : दिल्ली अधिकत प्राधिकारी : मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड www.readwhere.com

Place: Jaipur Date: 31/08/2022

आरपीएफ सं. : रेलटेल/आरपीएफ/ओटी/सीओ/Mktg/ निविदा सचना

2022-23/ GBT/GBM installation/04 दिनाक: 18.08.2022 रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. निविदा प्रलेख सं. 02-DCE-CN-ERS-OT-2022 बीच ट्रैक का दोहरीकरण-एटामनुर तथा

चिंगावनम स्टेशनों के बीच नये टैक का

बोली प्रस्तुति केवल रेलटेल के ई-निविदा पोर्टल पर जमा की जानी है। कोई भी

## **SP REFRACTORIES LIMITED** (Formerly known as SP Refractories Private Limited) (A Group of Mr. Prabodh S Kale)

CIN: U51909MH2007PLC167114 Regd Office: M-10, M-11/1 & M-11/2, MIDC, Hingna, Nagpur-440016

Office No.: 07104-235388/235399 | Mob No: 9422103525 Email: sprefractory@gmail.com/info@sprefractories.com | Website: www.sprefractories.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION hareholders are hereby informed that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the members of SP REFRACTORIE: LIMITED (Formerly known as SP Refractories Private Limited) will be held on Thursday, the 29th day of September, 2022 at 11.30 A.M. at the Registered office of the Company at M-10, M-11/1 & M-11/2, MIDC Industrial Area, Hingna Road Nagpur Maharashtra- 440016 India to transact the businesses as set forth in the notice of the AGM which will be sent to the

shareholders for convening AGM of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements Regulations 2015 (as amended) the Company is offering e-voting facility to all the respected members to enable them to cas their valuable vote on the item of business to be transacted at the meeting.

Notice and Annual Report will also be available on the Company's website at https://www.sprefractories.com/investor and on the website of stock exchange at https://www.nseindia.com/.

Manner of registering/updating email address: Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses with their depository participant(s) are requested to register/update their email addresses with the relevant depository participant(s).

Manner of casting vote through e-voting: The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the notice of AGM and the facility of voting through ballot paper would also be available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting shall also be made available to the shareholders through e-mail. The Company has availed the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate e-voting. The detailed procedure for casting votes through remote e voting shall be provided in the notice of AGM and the same will be available on the website of Company at https://www.sprefractories.com/investor and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting period commences on Saturday, 24th September, 2022 at 9.00 A.M. IST and ends on Wednesday, 28th September, 2022 at 5.00 P.M. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Friday, 23<sup>rd</sup> September, 2022** 

to Thursday, 29th September, 2022 (both days inclusive) for taking record of the Members of Company for the purpose o 15th (Fifteenth) AGM.

Further, Thursday, 22nd September, 2022 has been fixed as record date for the purpose of e-voting entitlement and fo determining the names of eligible members.

For SP Refractories Limited

Earnest Money (Rs)

Shweta Prahodh Kale



said 06th Day of October, 2022.

**Place:** Nagpur **Date:** 29-08-2022

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Registered Address:- Tower A, 11th Floor, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Branch Address: 07th Floor, Videocon Tower, Block E-1, Jhandewalan Extention, New Delhi- 110055. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

(Under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 LOAN ACCOUNT NO: - 8716742 (M/S ABDUL WAHID STEEL & IRON INDIA PRIVATE LIMITED)

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/ Co- Borrower that the below described immovable properties mortgaged to Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor/TCFSL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), will be sold on 07th Day of October, 2022 "As is where is basis" & "As is what is and whatever there is & without recourse basis". Whereas the sale of secured assets is 0.5 be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum of Rs. 1,5913,282/- (Rupees One Crore Fifty Nine Lakh(s) Thirteen Thousand Two Hundred Eighty Two Only) including all costs, interest etc. as on 30th December, 2021 from Borrowers/Co-Borrowers, i.e., 1. M/S ABDUL WAHID STEEL & IRON INDIA PRIVATE LIMITED, Through its Director at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi-110093, 2. ABDUL WAHID at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi-110093, ALSO AT: Industrial Plot Number 5, Dist Bulandshahr, Sikandarabad, Uttar Pradesh- 203202.ALSO AT: D-540, Gali Number 5, D Block, Ashok Nagar, Shahdara, Delhi-110093, 3. MRS. SHABNAM at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Mandoli, Saboli, North East Delhi 110093, 4. M/S ABDUL WAHID ENTERPRISES Through its Proprietor, at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Mandoli, Saboli, North East Delhi 110093, 4. M/S ABDUL WAHID ENTERPRISES Through its Proprietor, at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Mandoli, Saboli, North East Delhi 110093, 4. M/S ABDUL WAHID ENTERPRISES Through its Proprietor, at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi 110093, 4. M/S ABDUL WAHID ENTERPRISES Through its Proprietor, at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi 110093. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said properties shall be sold by E-Auction at 2.00 P.M. on the said 07th Day of October, 2022 by TCFSL., having its branch office at 07th Floor, Videocon Tower Block E-1, Ahandewalan Extention, New Delhi-110055. The sealed E-Auction for burchase of the properties along with EMID Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5.00 P.M. on the said 10fth Day of October 2022.

Reserve Price (Rs)

Type of Possession

	Symbolic/ Physical	, ,	, , ,
BUILT UP PROPERTY AREA MEASURING 60 SQUARE YARDS, I.E., 50.17 SQUARE METERS, BEARING PROPERTY NUMBER 545, OUT OF KHASRA NUMBER 789/533, WITH ROOF RIGHTS SITUATED AT VILLAGE SABOLI, IN THE ABADI OF D BLOCK, GALI NUMBER 5, ASHOK NAGAR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110033 MORE DESCRIBED IN SALE DEED 03RD FEBRUARY, 2016 EXECUTED IN FAVOUR OF ABDUL WAHID.	PHYSICAL	Rs. 1,40,00,000/- (Rupees One Crore Forty Lakh(s) Only)	Rs. 14,00,000/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Only)
BOUNDED AS:			
EAST : PROPERTY OF OTHERS			
WEST: ROAD 30 FT WIDE			
NORTH : PROPERTY OF OTHERS			
SOUTH : PROPERTY OF OTHERS			
The description of the properties that v	will be put up for sale	is in the Schedule. No officer	or other person, having any
duty to perform in connection with this	sale shall, however, dir	ectly or indirectly bid for, acqu	ire or attempt to acquire any

interest in the property sold. The claim of Secured Creditor is sub-judice before the Hon'ble Debts Recovery Tribuna Delhi. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act. 2002. The E-auction wi Defin. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARYACS Act, 2002. The E-auction will take place through portal https://bankauctions.in/ on 07th Day of October 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited extension of 10 minutes each. All the Bids submitted for the purchase of the properties shall be accompanied by Earnes Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD." payable at Delhi. Inspection of the property may be done on 16th Day of September 2022 between 11.00 AM to 5.00 PM Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr. Shailendra Shukla, Email id: shailendra.shukla@tatacapital.com and Mobile No. 91+ 8373901261.

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website, i.e., https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf, or contact Authorised Officer or Service Provider- M/s. 4Closure.

Place: New Delhi

**Authorized Office** Tata Capital Financial Services Ltd

### **QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED** (FORMERLY KNOWN AS GAURAV MERCANTILES LIMITED)

CIN: L74110DL1985PLC373314

Regd Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 | Tel: 011 45142374

Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9<sup>th</sup> Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 | Tel: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com | Email: cs@thequint.com

### **NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of the Company will be held on Friday September 23, 2022 at 04:00 p.m. IST through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") withou physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The venue for the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") & Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 ead with General Circular No Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD, CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2023 ("SEBI Circulars"), Members will be able to attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM and the facility o appointment of proxy will not be available. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose o reckoning the guorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 37th AGM and the Annual Report for the Financial year 2021-2022 have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant and/or Skyline Financial Services Private Limited ("RTA") on August 26, 2022. The same are also available on the Company's website www.quintdigitalmedia.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also disseminated on the website of the CDSL i.e.www.evotingindia.com

In compliance with the provisions of Section 108 of Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration, Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, Secretarial Standard- 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Company is pleased to offer its Members (holding shares either in physical and electronic form) the facility to exercise their vote by electronic means (remote e-voting) as well as e-voting during the AGM on all the resolutions set forth in the Notice of the 37th AGM. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the virtual platform of Central Depository

India Services (India) Limited ("CDSL"). Members may access the voting during the AGM by clicking the link provided in virtua platform i.e. https://www.evotingindia.com. Members may login by using the remote e-voting credentials. The procedure fo attending the AGM through VC / OAVM is explained in detail in the AGM Notice. The Company has appointed Mr. Devesh Vashisht, (CP No. 13700), Practicing Company Secretary and Partner of M/s Sanjay Grover & Associates failing him, Ms. Priyanka, Partner, M/s Sanjay Grover & Associates, as Scrutinizer to scrutinize the voting

process in a fair and transparent manner The results will be announced within the stipulated time under applicable laws and the results along with the consolidate scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company www.quintdigitalmedia.com and on the website of CDSL www.cdslindia.com and shall simultaneously be forwarded to the concerned stock exchange. The results shall also be

displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number o votes, the Resolution shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. September 23, 2022. All the Members are informed that: a) Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, September 20, 2022 (9:00 A.M. IST

b) Date and time of closing of remote e-voting: Thursday, September 22, 2022 (5:00 P.M. IST) c) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Thursday, September 22, 2022 and once the vote on a resolution

is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. d) The facility for voting electronically will be made available during the AGM.

e) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM shall be Friday

remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

September 16, 2022. f) Members whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by th

depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 16, 2022 shall only be entitled to attend and vote by remote e-voting or e-voting during the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice of AGM for information purpose only. g) Electronic Voting Even Number (EVEN): 220825001

h) The persons who have acquired shares and became Members of the Company after the dispatch of notice may obtain the

the purpose of 37th AGM of the Company

Date: August 29, 2022

Place: Noida

login ID and password by sending request at helpdesk evoting@cdslindia.com.However, if amember is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use the existing login Id and password for login Members who are present at the AGM through VC/ OAVM and who have not casted their vote on the resolutions through

j) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

k) The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM The same are also available on the Company's website www.quintdigitalmedia.com.

Members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depositor Participant(s) and in respect of shares held in physical form with the RTA.

m) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia com or call 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mi Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

or call on 022-23058542/43. For any other queries regarding attending the AGM through VC/OAVM or for any other matter kindly write to the Company at cs@thequint.com or to the RTA at subhashdhingreja@skylinerta.com. n) Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Actread with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any of the Act and Listing Regulations, the Register of Members shall remain closed from Saturday, September 17, 2022 to Friday, September 23, 2022 (both days inclusive) for

> For and on behalf of the Board of Director Quint Digital Media Limited

> > Tarun Belwa M. No. A39190

Place: Kanpur

Date: August 29, 2022

केनरा बैंक 🏡 Canara Bank

**BRANCH:Kurukshetra** 

**DEMAND NOTICE** 

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI)

A notice is hereby given that the following Borrower(s) / Guarantor(s) have defaulted in the repayment of principa and interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets on **30.06.2021**. The notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor(s) at their last know addresses by registered / speed post. However the notices have been returned un-served and the Authorisec Officer has reasons to believe that the Borrower(s) / Guarantor(s) are avoiding the service of notice, as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Amount as per Name of the Borrower Security agreement with Brief demand notice (Rs.) type of facility **Description of Securities Demand Notice** Rs 20,61,972.60/- OCC & GECL 1. M/s Saurabh Garg Movable: Hypothecaution of Stocks 16-08-2022 as on 15.08.2022 with interest Contractor (Borrower), and Book Debts less than 90 days. (For OCC) H.No. 287/8, Behind Main Immovable: Collateral Securities: All the part and parcel thereon.

of Residential House, measuring 100 sq-yards bearing H.No. 287/8, situated at State Bank Colony, Darra Kalan, Thanesar, Distt- Kurukshetra, purchased vide deed no. 5444 dated Kurukshetra, Haryana, 2. 26.03.2003 in the name of Sh. Saurabh Garg and Akhil Garg S/o Sh. Subhash Chand S/o Sh Saurabh Garg S/o Sh. Ved Parkash R/o H.No. 287/8, State Bank Colony, Thanesar, Distt. Kurukshetra.

Subhash Gupta (Proprietor), H.No. 287/8, State Bank Colony, Ward No. 8, Kurukshetra, Haryana, 3. Sh. Akhil Gupta S/c Subhash Chand Gupta (Guarantor), House No. 287, Ward No. 8, State Bank Colony, Kurukshetra, Haryana.

Please note that, interest will continue to accrue at the rates specified in para 1 above for each credit facility until payment in full. We invite your attention to Sub-Section 13 of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets referred to in para 1 above by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business), without obtaining our prior written consert. We may add that non-compliance with the above provision contained in Section 13 (13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 of the Act. We further invite your attention to Sub-Section (8) of Section 13 of the said Act in terms of which you may redeem the secured assets, if the amount of dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction / inviting quotations / tender / private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available. Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us. The above Borrower(s) / Guarantor(s) are advised to pay the amount mentioned in notice within 60 days from the date of publication of Demand Notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of publication of Demand Notice as per provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Moreover the borrower(s) / guarantor(s) are hereby restrained from dealing with any of the above secured assets mentioned above in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and Act or any other law in force.

Place: Kurukshetra

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo,



Dated: 29.08.2022

### Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: Sanjay Vaishy - 7977255521, Naveen Chaudhary - 9368265544. , Govind Ram Sharma - 9212443181.

PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the

Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers. Total Description of

0.	Co-Borrower / Guarantor	Mortgaged Property	Possession Date	Amount	Price (Rs.)	(Rs.)				
		Plot No 2, Khasra No 83 & 84, Colony Aakash Puram, Revenue Village Mohkampur, Pargana, Tehsil & Distt-Meerut, Uttar Pradesh - 250001	Possession -	12,42,558.11/- as on 26-March-2021	.,,	83,000.00/-				
respection Date & Time: 14-September-2022 & 15-September-2022 at 10.00 AM to 05.00 PM										

Place of Sale Meerut Branch: 2nd Floor, Cee Gee Tower 155/1, Mangal Pandey Nagar, CCS University Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250004

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:

1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESIAct, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any, 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring: "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. A) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tay department AND bidder's identify proof and the proof of residence such as comy of the Passons. Election commission Card money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs. 10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance/ Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the Sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized officer. 10) The Authorized officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) In case, all the dues to gother with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower/co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability/ claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd.

The borrower/guarantor/mor

mentioned above. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days' time else it will be emoved from property on their risk and cost

Place: Meerut, Date: 30-August-2022

Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

# Jaykay Enterprises Limited

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur – 208 001 (India)

Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail: cs@jaykayenterprises.com; Website: www.jaykayenterprises.com

### **NOTICE OF 76TH ANNUAL GENERAL MEETING, AND INFORMATION ABOUT E- VOTING**

NOTICE is hereby given that an 76TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue on Tuesday, September 20, 2022 at 02:00 P.M. to transact the business as set out in the Notice convening AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and the MCA General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, MCA General Circular No. 17/2020, dated 13th April, 2020, MCA General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, MCA General Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, MCA General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, MCA General Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, MCA General Circular No.20/2021 dated 08th December, 2021, MCA General Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and MCA General Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'the Circulars') and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listina Oblications and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

n compliance with the aforementioned MCA Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM, to the Members of the Company has already been sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company The aforesaid documents are also available on the Company's Website at www.jaykayenterprises.com and on the Website of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) at www.evotingindia.com. The Company would be providing remote e-voting facility to its members pursuant to the provisions of Section 108 of the

Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 "Rules"), as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') the facility to attend and participate in the AGM through VC / OAVM and the facility of voting through e-voting system during the AGM to all its Members (holding shares, either in physical or dematerialized form, as on Tuesday, September 13, 2022 (Cut-off date). Any person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of AGM as for information purposes only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. The Company has engaged the services of CDSL for providing these facilities to the Members. The remote e-voting period commences on Saturday, September 17, 2022 at 10:00 A.M. and ends on Monday,

September 19, 2022 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed Ms. Reena Jakhodla (CP No. 6083), Practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the evoting process in fair and transparent manner. The e-voting instructions including unique number for first time e-voting user, Instructions for joining the AGM through VC /

OAVM facility are provided in the Notice of the AGM and attendance of the Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The login credentials and procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM have already been sent on the registered e-mail address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM. The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company, are requested to register their e

mail addresses, for obtaining log-in credentials, by following the instructions below: 1. For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the

Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company's email id at cs@jaykayenterprises.com; investorservices@jaykayenterprises.com. SEBI vide its circular dated 3rd November, 2021, has mandated registration of PAN, Nomination and KYC details. Members holding shares in physical form are, therefore requested to submit their PAN, Nomination and KYC details to the Company, i.e., Jaykay Enterprises Limited, Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P. by submitting duly filled Form ISR-1 and other relevant forms available on the website of the Company. 2. For Demat shareholders- Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit

DPID+CLID), Name, Client Master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company's email id at <u>cs@jaykayenterprises.com;</u> investorservices@jaykayenterprises.com. The facility for E-voting during AGM shall be made available to those Members who have not cast their vote by remote e-

Voting and are attending the AGM through VC/OAVM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again during the AGM. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. By Order of the Board

(Abhishek Pandey) Company Secretary Membership No. ACS-21958 FINANCIAL EXPRESS



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बँक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने

भीम

नागौर-३४१००१ (राज.), इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.c

कमांक-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यु.बी.-१३६/१२२८ दिनांक : २९.०८.२०२२ र्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना विस्तार हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मै.अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा, तहसील-नागौर एवं जायल, जिला-नागौर के लाईम स्टोन खनन परियोजना विस्तार (एम.एल-II एरिया-६३५ हेक्ट) द्वारा लाईम स्टोन

उत्पादन क्षमता में वृदि ०५० एम.टी.पी.ए. से २० एम.टी.पी.ए. (टॉप सॉयल ०.१६ एम.टी.पी.ए. वेस्ट (OB/IB)०५०

एम.टी.पी.ए. (Total Excavation २.७४ एम.टी.पी.ए.) से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकित

से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना के विस्तार के लिए लोक जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्र मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि **मै. अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मारवाड मुंडवा,** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना विस्तार की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिख्न द्वारा जारी

अधिसूचना संख्या एस.ओ. १५३३ दिनांक १४.०९.२००६ ओर एस.ओ. १४१ ई दिनांक १५.०१.२०१६ के प्रावधाने के अनुसरण में जन सुनवाई हेतू इस आशय की सूचना जारी कर ३० दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। उक्त समूह खनन परियोजना के विस्तार से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक अभिलेख निम्न कार्यालयो में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-जिला कलक्टर, नागौर।

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला -नागौर।

. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, ४-संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपूर।

पर्यावरण विभा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।

उपखण्ड अधिकारी, मारवाड मण्डवा उपखण्ड अधिकारी, जायल।

. जिला उद्योग केन्द्र. नागौर।

 ग्राम पंचायत डीडीया कलां, तहसील-जायल, जिला-नागौर। १. ग्राम पंचायत ईनाणा, तहसील-मुण्डवा, जिला-नागौर।

१२. जन सुनवाई उपखण्ड कार्यालय नागौर। भतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ ज.सु २०२२/५६०० दिनांक २९.०८.२०२२ के क्रम में इस आम सुचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है वि . उक्त खनन परियोजना के विस्तार की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुवाई हेतु दिनांक ३०.०९.२०२२ (शुक्रवार)

र्नाणा में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से ३० दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-१९ से सम्बंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशा के अनुरूप एवम् अधीन रहेगी तथा सभी ।।वधानों/सावधनियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

को सबह ११.०० बजे, स्थान-एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया एम.एल.-II परियोजना स्थल, ग्राम

(सविता)



**Authorized Officer** 

# The Singareni Collieries Company Limited (A Government Company) Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana. E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

enders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procureme platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.sccImines.corn NIT/Enquiry No.- Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

E0422O0185 - Procurement of SOKIA, LEICA and BOSCH make Digital Level Instruments against open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022- 17:00 Hrs. E0422O0189 - Procurement of LEICA or SOKIA make DGPS-1 Base and 3 Rovers agains

open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022-17:00 Hrs. E032200121 - Procurement of 500/600 mA High Frequency X-RAY Machine with Retrofit DR for use at SCCL Hospitals - 12.09.2022-17:00 Hrs. General Manager (Material Procurement

NIT/Enquiry Na.- Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time for Submission of bid(s) CRP/CVL/RG-I/TN-35/2022-23, Dt.24.08.2022 - Construction of site office for GDK coal mine (No. 2, 2A & 5) at RG-I Area, Godwarikhani Peddapalli Dist., Telangana State -Rs, 1,25,25,653/- 09.09.2022-4:30 P.M.

sub-stahon (1 No) and providing foundation beds for erection of feeder breakers (2 nos) including connecting gantries near RG OCP-III CHP RG-II Area, Godavarikhani, Peddapalli Dist., Telangana State - Rs.2,93,23,694/- 09.09.2022- 4:30 P.M. CW/KGM/e-24/2022-23, Dt.23.08.2022 - M &. R works for section No.7K i.e., all residential quarters

CRP/CVL/RG-II/TN-36/2022-23, Dt. 24.08.2022 - Construction of retaining wall (1 No),

including MC type guarters at Burma Camp area, Kothagudem Corporate for the year 2022-23, Bhadradri Kothagudem Distric., Telangana State. Rs.45,19,765/- 08.09.2022-4:00 P.M CW/KGM/e-25/2022-23, Dt: 23.08.2022 - Replacement of damaged 50mm and lower G.I water supply pipe lines with 63mm etc., end lower dia., PPR pipes at Ganeshpuram area (Phase-I), Kothagudem Corporate. Bhadradri Kothagudem District, Telangana State - Rs.49,42,650/- 08.09.2022-4:00 P.M

CW/KGM/e-26/2022-23, Dt.28.08.2022- M & R works for section No.5K at Babu Camp area Kothagudem Corporate for the year 2022-23, Bhadrari Kothagudem District., Telangan State - Rs. 39,13,690/- 12.09.2022- 4:00 P.M General Manager (Civil General Manager (Civil)

CWI/RD/e-24/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of S.C. Colony (Phase-I) near Kistaram OC Sathupalli Kothaguder (Under CSR)-Rs.30,01,692/- 02.09.2022-4:30 P.M CWI/RD/e-25/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of Vengalrao nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli Kothagudem Area (Under CSR)-Rs.30,04,024/- 02.09.2022-4:30 P.M

CWI/RD/e-26/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of NTR nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli Kothagudem Area (Under CSR) ("Invited under earmarked work-SC Community are eligible to participate")-Rs.30,07,508/- 02.09.2022-4:30 P.M

CWI/RD/e-27/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of B.C Colony (Phase-1) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem (Under CSR)- Rs.30,13,113/- 02.09.2022-4:30 P.M A.G.M (Civil) KGM Area PR/2022-23/MP/CVL/37

DIPR R.O. No. :599-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2022-23

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process fo corporate Persons) Regulations, 2016. RELEVANT PARTICULARS 1. Name of the Corporate Debtor

M/s Drish Shoes Limited 09th March, 1987 2. Date of incorporation of Corporate Debtor Corporate Pradesh Companies, ncorporated / registered Corporate identity number / limited liability U45202HP1987PLC007337 Identification Number of Corporate Debtor Address of the Registered Office and Principal Village Rajpura, Tehsil Nalagarh, Distt Office (if any) of Corporate Debtor
 Solan, Himachal Pradesh - 174101 Office (if any) of Corporate Debtor Insolvency Commencement Date in respect of 12.05.2022 (Order received or 13.05.2022) Date of invitation of expression of interest 30th August, 2022 8. Eligibility for resolution applicants under section Details can be sought in electronic form 25(2)(h) of the Code is available at: by E-mail at: ippradeep.dsl@gmail.com Norms of ineligibility applicable under section 29A Available at the website of IBB https://ibbi.gov.in/legal-framework along with invitation to Expression o nterest document. 10. Last Date for receipt of expression of interest 14th September, 2022 by 18:00 Hours Date of issue of provisional list of prospective 24th September, 2022 resolution applicants

Last date for submission of objections to provisional list 29th September, 2022 13. Date of issue of final list of prospective resolution 8th October, 2022 applicants 14. Date of issue of information memorandum 29th September 2022

evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 15. Manner of obtaining request for resolution plan, The IRP will share the Request for evaluation matrix, information memorandum and Resolution Plan/ Evaluation Matrix

Further Details are available at or witl

Resolution Plan/ Evaluation Matrix Information Memorandum in Electronic Form after Verification of KYC Capacity to Invest, Capability Manage and Eligibility Under Section 29A of IBC, 2016 and Pre-Qualificatio Criteria, if any approved by CoC 16. Last date for submission of resolution plans 31st October, 2022 by 18:00 Hours mention against Serial No. 21

17. Manner of submitting resolution plans by prospective resolution Applicant to IRP 18. Estimated date for submission of resolution plan to 30th November, 2022 ne Adjudicating Authority for approval Name and registration number of the IRP CA Pradeep Kumar Kabra IBBI/IPA-001/IP-P01104/2017-18/11790 20. Name, Address and E-mail of the IRP, as CAPradeep Kumar Kabra

C/905, Ofira Building, Opp. Swar Sangini, V.I.P. Road, Bharthana, Vesu, Surat-395007, Gujarat, India. E-mail:-ippradeepkabra@gmail.com 21. Address and E-mail to be used for CA Pradeep Kumar Kabra, 3rd Floor Regus Business Centre, New City Light Road, Surat – 395007, Gujarat.

ppradeep.dsl@gmail.com 23. Date of publication of Form G 30th August, 2022 \*NOTE:- Depends upon extension / exclusion granted by Hon'ble NCLT. CA IP Pradeep Kumar Kabra

IRP for M/s Drish Shoes Limited Place: Surat 3rd Floor, Regus Business Centre, New City Light Road, Surat-395007, Gujarat. IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01104 /2017-18/11790, E-mail: ippradeep.dsl@gmail.com

# "IMPORTANT

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Email:-ippradeep.dsl@gmail.com

Can be obtained by sending E-mail at

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its

New Delhi